



असांजो सबकु आहे फल। फल याने मेवा। तव्हां मेवनि खे त सुजाणो। तव्हां अंगूर डिठा आहिनि, तव्हां केला डिठा आहिनि, तव्हां सूफ़ बि खाधा हूंद। अंबु त मेवनि जो राजा आहे। हरहिक फल जो सवाद ऐं रंगु बि जुदा हूंदो आहे। फल सभिनी खे वणंदा आहिनि। अचो त फलनि जो मिठिडो बैतु पढूं।



सिखण जा नतीजा



हिन सबक़ खे पढण खां पोइ शागिर्द-

- फलनि खे सुजाणनि था।
- फल खाइण जा फाइदा बुधाईनि था।



3.1 बुनियादी सबकु



हाणे अचो त हीउ सबकु ध्यान सां पढूं ऐं समुझूं-

मिठिडा मेवा सिहत बणाइनि ।

नंढा वडा था खाइणु चाहिनि ॥





अंबु फलनि जो राजा आहे ।
को मेवो उन जहिडो नाहे ॥

सूफ़ सवादी जेको खाए ।
पंहिंजे रत खे शुद्ध बणाए ॥



हाजिमो पपयो ठीक करे ।
जेतून सागियो कमु करे ॥



खाए गिदिरो लाल हिंदाणो ।
गर्मीअ में कंध हेठां विहाणो ॥



केला चकूं अंगूर खजूर ।
सवाद सिहत ड्रियनि भरपूर ॥

खाओ फारवां ज़मूं कारा ।
खटा मिठा ही आलूबुखारा ॥



फल खाइण खां करियो न आरु ।
बणिजो सुठिडो डाहो ब्रारु ॥



3.2 अचो त समुझूं

हिन बैत में फलनि जी अहमियत बुधायल आहे। फल असांजी सिहत लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि। बैत में हर मेवे जी खूबी बुधायल आहे। मिसालु सूफु रत खे शुद्ध बणाए थो। पपयो ऐं जेतून हाजिमो ठीकु कनि था। गिदिरो ऐं हिंदाणो गर्मीअ में राहत पहुचाइनि था। केला, चकूं, अंगूर, खजूर, फारवां, ज़मूं, अलूबुखारा शरीर खे तंदुरुस्त बणाईदा आहिनि।



सबक बाबत सुवाल 3.1

सही जवाब चूडे लिखो-

1. रतु शुद्ध करण लाइ मेवो आहे-

(अ) केलो

(ब) सूफु

(स) चकूं

(द) अंगूर

()

2. फलनि जो राजा आहे-

(अ) अंबु

(ब) खजूर

(स) फारवां

(द) सूफु

()



मशगूलियूं 3.1

(1) हिन बैत खे सुर सां पढी बुधायो।

(2) फलनि जे बारे में बैतु बुधायो।



तव्हीं छा सिखिया

- मेवा सिहत लाइ ज़रूरी आहिन।
- असांखे खाधे में मेवनि जो इस्तेमाल करणु घुरिजे।



वधीक ज्ञाण

- फल खाइण खां अगु उन्हनि खे चडीअ तरह पाणीअ सां धोअण घुरिजे।
- मुंदाइता फल खाइणु सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहिन।
- घणे वक्त जो कटियलु फलु सिहत लाइ नुकसानकार आहे।



सबक़ जे आखिर जा सुवाल

1. हेठियां खाल भरे सिट पूरी करियो-
 - (i) मिठिडा मेवा बणाइनि।
 - (ii) फलनि जो राजा आहे।
 - (iii) पंहिंजे खे शुद्ध बणाए।
 - (iv) हाजिमो पपयो करे।
 - (v) खटा मिठा ही।

2. हेठियां जोड़ा मिलायो-

- | | |
|----------------|---------------------|
| (i) अंबु | (i) रतु शुद्ध बणाए |
| (ii) सूफु | (ii) खटा मिठा |
| (iii) पपयो | (iii) फलनि जो राजा |
| (iv) हिंदाणो | (iv) सवाद सिहत |
| (v) फारवां | (v) गर्मी दूर करे |
| (vi) केला चकूं | (vi) हाजिमो ठीक करे |

3. हेठियनि लफ़ज़नि खे जुमिले में कमि आणियो-

- | | | |
|-------------|-----------|-------------|
| (i) मेवा | (ii) राजा | (iii) सवादी |
| (iv) हाजिमो | (v) अंगूर | (vi) आरु |

4. हेठियनि सुवालनि जा जवाब लिखो-

- (i) मिठिडा मेवा छ था बणाइनि?
- (ii) कहिडो फलु फलनि जो राजा आहे?
- (iii) सूफु खाइण मां कहिडो फाइदो आहे?
- (iv) कहिडो फलु खाइण सां हाजिमो ठीक थिए थो?
- (v) गिदिरो ऐं हिंदाणो कहिडी मुंद में फाइदे वारा आहिनि?
- (vi) आलूबुखारनि जो सवाद कहिडो आहे?

5. हेठियनि मां सही लफ़ज़ ते गोलो पायो-

- (i) फलनि जो राजा आहे- अंबु, सूफु
- (ii) रत खे शुद्ध बणाए थो- सूफु, गिदिरो
- (iii) पपयो ऐं जेतून खाइण सां ठीक थिए थो- हाजिमो, बुखार



- (iv) गिदिरो ऐं हिंदाणो जंहिं मुंद में फ़ाइदे वारा आहिनि, सा आहे - बरसात, गर्मी
(v) फल खाइण वारो बरु थींदो आहे - तंदुरुस्त, कमजोरु
(vi) खटे मिठे सवाद वारो मेवो आहे - चकूं, फारवां



सबक़ बाबत सुवालनि जा जवाब

1. (ब) 2. (अ)



नवां लफ़्ज़

- सिहत = तंदुरुस्ती
- मुंदाइता = मौसम मुताबिक
- हाजिमो = खाधो पचणु
- शुद्ध = साफ़
- भरपूर = तमाम घणी
- आरु = बहाना
- डाहो = आज्ञाकरी, चएवान
- कंध हेठां विहाणो = चिंता न करणु, बेओनो थियणु

